

श्री गौतम-गणधरदेव की पूजा Srī Gautama-Gaṇadharadēva Ki Pūjā

अरुणा जैन 'भारती'

Aruṇā jaina 'bhārati'

(कुसुमलता छन्द)

(kusumalatā chanda)

मगधदेश के गौतमपुर में, वसुभूति ब्राह्मण थे श्रेष्ठ |

माता पृथ्वीदेवी के थे, पुत्र तीन इन्द्रभूति ज्येष्ठ ||

हुए प्रथम गणधर श्री वीर के, द्वादशांग का ज्ञान लिया |

प्रभु के पावन पथ पर चलकर, अपना भी कल्याण किया ||

वीर-देशना को गुंजित करके, जग को सुज्ञान दिया |

तुम सम बनने को ही स्वामी! मैं ने तुव आह्वान किया ||

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिन् ! अत्र अवतरत अवतरत संवौषट्! (आह्वाननम्)

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिन् ! अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः! (स्थापनम्)

ॐ ह्रीं श्रीगौतम गणधर स्वामिन् ! अत्र मम सन्निहितो भवत भवत वषट्! (सन्निधिकरणम्)

Magadhadēśa kē gautamapura mēm, vasubhūti brāhmaṇa thē śrēṣṭha |

Mātā pṛthvīdēvī kē thē, putra tīna indrabhūti jyēṣṭha ||

Hu'ē prathama gaṇadhara śrī vīra kē, dvādaśāṅga kā jñāna liyā |

Prabhu kē pāvana patha para calakara, apanā bhī kalyāṇa kiyā ||

Vīra-dēśanā kō guñjita karakē, jaga kō sujñāna diyā |

Tuma sama bananē kō hī svāmī! Main nē tuva āhvāna kiyā ||

Om hriṁ śrīgautamagaṇadharasvāmin! Atrā avatarata avatarata sanvaṣaṭ! (āhvānanam)

Om hriṁ śrīgautamagaṇadharasvāmin! Atrā tiṣṭhata tiṣṭhata ṭha: ṭha:! (Sthāpanam)

Om hriṁ śrīgautama gaṇadhara svāmin! Atrā mama sannihitō bhavata bhavata vaṣaṭ!

(sannidhikaraṇam)

अष्टक

श्री गुरुवर के चरणों में, प्रासुक जलधार कराऊँ |

जन्म मरण का रोग मिटे, बस ये ही आस लगाऊँ ||

परम पूज्य गौतम स्वामी के, पद पंकज नित ध्याऊँ |

गुरुवाणी पर श्रद्धा करके, निज शाश्वत पद पाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

Aṣṭaka

Srī guruvara kē caraṇōm mēm, prāsuka jaladhāra karā'ūnā |

Janma maraṇa kā rōga miṭhē, basa yē hī āsa lagā'ūṁ ||
 Parama pūjya gautama svāmī kē, pada paṅkaja nita dhyā'ūṁ |
 Guruvāṇī para śrad'dhā karakē, nija śāśvata pada pā'ūṁ ||

Om hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalam nirvapāṁti svāhā |1|

गुरु पद वंदन करने को, शीतल चंदन घिस लाऊँ |
 भव आताप मिट जाए मेरा, अतः गुरु गुण गाऊँ ||
 परम पूज्य गौतम स्वामी के, पद पंकज नित ध्याऊँ |
 गुरुवाणी पर श्रद्धा करके, निज शाश्वत पद पाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Guru pada vandana karanē kō, śītala candana ghisalā'ūṁ |
 Bhava ātāpa miṭha jā'ē mērā, ata: Guru guṇa gā'ūṁ ||
 Parama pūjya gautama svāmī kē, pada paṅkaja nita dhyā'ūṁ |
 Guruvāṇī para śrad'dhā karakē, nija śāśvata pada pā'ūṁ ||

Om hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāṁti svāhā |2|

तंदुल धवल अखंडित लेकर, जिनवर-पूज रचाऊँ |
 अक्षय पद पा जाऊँ अपना, सोच-सोच हृषाऊँ ||
 परम पूज्य गौतम स्वामी के, पद पंकज नित ध्याऊँ |
 गुरुवाणी पर श्रद्धा करके, निज शाश्वत पद पाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Tandula dhavala akhaṇḍita lēkara, jinavara-pūja racā'ūṁ |
 Akṣaya pada pā jā'ūṁ apanā, sōca-sōca harṣā'ūṁ ||
 Parama pūjya gautama svāmī kē, pada paṅkaja nita dhyā'ūṁ |
 Guruvāṇī para śrad'dhā karakē, nija śāśvata pada pā'ūṁ ||

Om hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāṁti svāhā |3|

पुष्प सुगंधित मकरंद मंडित, भाँति भाँति के लाऊँ |
 काम-वासनायें मिट जायें, आतम ध्यान लगाऊँ ||
 परम पूज्य गौतम स्वामी के, पद पंकज नित ध्याऊँ |
 गुरुवाणी पर श्रद्धा करके, निज शाश्वत पद पाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Puṣpasugandhita makaranda maṇḍita, bhāṁti bhāṁti kē lā'ūṁ |
 Kāma-vāsanāyēṁ miṭha jāyēṁ, ātama dhyāna lagā'ūṁ ||
 Parama pūjya gautama svāmī kē, pada paṅkaja nita dhyā'ūṁ |
 Guruvāṇī para śrad'dhā karakē, nija śāśvata pada pā'ūṁ ||

Om hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmiti svāhā [4]

नाना व्यंजन मिष्ट बनाकर, स्वर्णथाल में लाऊँ ।
हे प्रभु क्षुधा रोग मिट जाए, परम शांति पा जाऊँ ॥
परम पूज्य गौतम स्वामी के, पद पंकज नित ध्याऊँ ।
गुरुवाणी पर श्रद्धा करके, निज शाश्वत पद पाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Nānā vyañjana miṣṭa banākara, svarṇathāla mēm lā'ūṁ |
Hē prabhu kṣudhā rōga miṭa jā'ē, parama śānti pā jā'ūṁ ||
Parama pūjya gautama svāmī kē, pada paṅkaja nita dhyā'ūṁ |
Guruvāṇī para śrad'dhā karakē, nija śāśvata pada pā'ūṁ ||

Om hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyaṁ nirvapāmiti svāhā [5]

दीप प्रज्वलित अर्पण करके, ज्ञान की ज्योति जलाऊँ ।
काल अनादि से छाया यह, मोह तिमिर विघटाऊँ ॥
परम पूज्य गौतम स्वामी के, पद पंकज नित ध्याऊँ ।
गुरुवाणी पर श्रद्धा करके, निज शाश्वत-पद पाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने मोहंधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Dīpa prajjalita arpaṇa karakē, jñāna kī jyōti jalā'ūṁ |
Kāla anādi sē chāyā yaha, mōha timira vighaṭā'ūṁ ||
Parama pūjya gautama svāmī kē, pada paṅkaja nita dhyā'ūṁ |
Guruvāṇī para śrad'dhā karakē, nija śāśvata-pada pā'ūṁ ||

Om hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē mōhāndhakāra-vināśanāya dīpaṁ nirvapāmiti svāhā [6]

अगर तगर कालागुरु चंदन की सुवास फैलाऊँ ।
मानों वसुकर्मों की दुर्गन्ध, इस विधि दूर भगाऊँ ॥
परम पूज्य गौतम स्वामी के, पद पंकज नित ध्याऊँ ।
गुरुवाणी पर श्रद्धा करके, निज शाश्वत पद पाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Agara tagara kālāguru candana kī suvāsa phailā'ūṁ |
Mānōm vasukarmōm kī durgandha, isa vidhi dūra bhagā'ūṁ ||
Parama pūjya gautama svāmī kē, pada paṅkaja nita dhyā'ūṁ |
Guruvāṇī para śrad'dhā karakē, nija śāśvata pada pā'ūṁ ||

Om hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē aṣṭakarma-dahanāya dhūpaṁ nirvapāmiti svāhā [7]

श्रीफलादि अतिश्रेष्ठ फलों को, प्रभु चरणों में लाऊँ ।

मुक्ति मार्ग पर चलकर मैं भी, जीवन सफल बनाऊँ ॥
 परम पूज्य गौतम स्वामी के, पद पंकज नित ध्याऊँ ।
 गुरुवाणी पर श्रद्धा करके, निज शाश्वत पद पाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Śrīphalādi atīśrēṣṭha phalōm kō, prabhu caraṇōm mēm lā'ūm̃ |
 Mukti mārga para calakara mair̃ bhī, jīvana saphala banā'ūm̃ ||
 Parama pūjya gautama svāmī kē, pada paṅkaja nita dhyā'ūm̃ |
 Guruvāṇī para śrad'dhā karakē, nija śāśvata pada pā'ūm̃ ||

Ōm hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē mōkṣaphala-prāptayē phalar̃ nirvapāmīti svāhā |8|

आठों द्रव्य मिलाकर के मैं, मनहर अर्घ बनाऊँ ।
 निज अनर्घपद के पाने को, गीत प्रभु के गाऊँ ॥
 परम पूज्य गौतम स्वामी के, पद पंकज नित ध्याऊँ ।
 गुरुवाणी पर श्रद्धा करके, निज शाश्वत पद पाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Āṭhōm dravya milākara kē mair̃, manahara argha banā'ūm̃ |
 Nija anarghapada kē pānē kō, gīta prabhu kē gā'ūm̃ ||
 Parama pūjya gautama svāmī kē, pada paṅkaja nita dhyā'ūm̃ |
 Guruvāṇī para śrad'dhā karakē, nija śāśvata pada pā'ūm̃ ||

Ōm hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē anarghyapada-prāptayē arghyar̃ nirvapāmīti svāhā |9|

जयमाला

Jayamālā

(चौपाई)

जय-जय जय-जय गौतम गणेश, तुमने सब कर्म किए निःशेष ।
 हम भी अपने आत्म के काज, तुम चरणों में आए हैं आज ॥

(caupāi)

Jaya-jaya jaya-jaya gautama gaṇēśa, tumanē saba karma ki'ē ni:Śēṣa |
 Hama bhī apanē ātama kē kāja, tuma caraṇōm mēm ā'ē haim̃ āja ||

तुम ज्ञान मान के मतवारे, सब विद्या के जानन हारे ।
 पर जब तक नहीं प्रभु दर्श किए, तब तक छाया था मान हिए ॥

Tuma jñāna māna kē matavārē, saba vidyā kē jānana hārē |
Para jaba taka nahim prabhu darśa ki'ē, taba taka chāyā thā māna hi'ē ||

देवेन्द्र ने योग जुटाया था, तब तुमने दर्शन पाया था |
जैसे ही मानस्तम्भ देखा, नहीं रही हृदय में मद रेखा ||

Dēvēndra nē yōga juṭāyā thā, taba tumanē darśana pāyā thā |
Jaisē hī mānastambha dēkhā, nahīm rahī hṛdaya mēm mada rēkhā ||

निर्मल मन से सीढ़ी चढ़ते, प्रभु के चरणों में सिर धरते |
जैनेश्वरी दीक्षा धारण की, हर शंका तभी निवारण की ||

Nirmala mana sē sīṛhī caṛhatē, prabhu kē caraṇōm mēm sira dharatē |
Jainēśvarī dīkṣā dhāraṇa kī, hara śaṅkā tabhī nivāraṇa kī ||

हुए चार ज्ञानधारी तत्क्षण, मन शुद्धि बढी क्षण-क्षण प्रतिक्षण |
गणधर तुम पहले कहलाए, विपुलाचल पर यह फल पाए ||

Hu'ē cāra jñānadhārī tatkṣaṇa, mana śud'dhi barhī kṣaṇa-kṣaṇa pratikṣaṇa |
Gaṇadhara tuma pahalē kahalā'ē, vipulācala para yaha phala pā'ē ||

आश्चर्य हुआ जग को अपार, जब खिरी दिव्यध्वनि सौख्यकार |
सब जीव करें आकंठ पान, पाया सबने दुःखों से त्राण ||

Aścarya hu'ā jaga kō apāra, jaba khiṛī divyadhvani saukhyakāra |
Saba jīva karēm ākaṇṭha pāna, pāyā sabanē du:Khōm sē trāṇa ||

लघु द्वय भ्राता भी साधु बने, गणधर बनकर फिर कर्म हने |
थे शिष्य पाँच सौ जो संग में, वे भी रंग गए मुक्ति रंग में ||

Laghu dvaya bhrātā bhīsādhu banē, gaṇadhara banakara phira karma hanē |
Thē śiṣya pāṁca sau jō saṅga mēm, vē bhīraṅga ga'ē muktī raṅga mēm ||

पशुओं का भी कल्याण हुआ, उनको भी आतमज्ञान हुआ |
सामान्यजनों ने भी धारे, अणुव्रत आदिक भी स्वीकारे ||

Paśu'ōm kā bhī kalyāṇa hu'ā, unakō bhī ātamajñāna hu'ā |
Sāmān'yajanōm nē bhī dhārē, aṇuvrata ādika bhī svīkāre ||

हे स्वामी! यदि तुम न होते, प्रभु वाणी से वंचित रहते।
हैं हम पर ये उपकार महा, जो हमने आत्मज्ञान लहा ॥

Hē svāmī! Yadi tuma na hōtē, prabhu vāṇī sē vañcita rahatē |
Haiṁ hama para yē upakāra mahā, jō hamane ātamajñāna lahā ॥

इसलिए प्रथम सुमिरन करते, श्रद्धा प्रसून अर्पण करते।
हे गुरुवर! पायें ज्ञानदान, कर सकें निजातम का कल्याण ॥

Isali'ē prathama sumirana karatē, śrad'dhā prasūna arpaṇa karatē |
Hē guruvara! Pāyēṁ jñānadāna, kara sakēṁ nijātama kā kalyāṇa ॥

तुमने प्रभु को जितना जाना, अपने को उतना लघु माना।
ऐसा अपूर्व साहस कीना, मद कर्म शत्रु का हर लीना ॥

Tumanē prabhu kō jitanā jānā, apanē kō utanā laghu mānā |
Aisā apūrva sāhasa kīnā, mada karma śatru kā hara līnā ॥

जब जिनवर का निर्वाण हुआ, तब तुमको केवलज्ञान हुआ।
होती प्रभात में प्रभु पूजा, सन्ध्या को दीप जले दूजा ॥

Jaba jinavara kā nirvāṇa hu'ā, taba tumakō kēvalajñāna hu'ā |
Hōtī prabhāta mēṁ prabhu pūjā, sandhyā kō dīpa jalē dūjā ॥

प्रातः मोदक ले आते हैं, मुक्ति का मोद मनाते हैं।
सन्ध्या को ज्ञानोत्सव करते, मन से अज्ञान तिमिर हरते ॥

Prāta: Mōdaka lē ātē haiṁ, mukti kā mōda manātē haiṁ |
Sandhyā kō jñānōtsava karatē, mana sē ajñāna timira haratē ॥

घर-घर में रंगोली करते हैं, समोसरण ही मानों रचते हैं।
तब बरसे थे बहुमूल्य रतन, बरसाते खील बताशे हम ॥

Ghara-ghara mēṁ raṅgōlī karatē haiṁ, samōsaraṇa hī mānōṁ racatē haiṁ |
Taba barasē thē bahumūlya ratana, barasātē khīla batāśē hama ॥

प्रभु आयेंगे मेरे घर पर, इसलिए सजाते हैं सब घर।
घर द्वार स्वच्छ करते पहले, फिर साफ करें तन मन मौले ॥

Prabhu āyēṅgē mērē ghara para, isali'ē sajātē hairṁ saba ghara |
Ghara dvāra svaccha karatē pahalē, phira sāpha karēm tana mana mailē ||

लो स्वागत को तैयार हुए, अंतर में हर्ष अपार हुए |
सचमुच प्रभु हिरदय में आओ, मन ज्ञान की ज्योति जगा जाओ ||
Lō svāgata kō taiyāra hu'ē, antara mēm harṣa apāra hu'ē |
Sacamuca prabhu hiradaya mēm ā'ō, mana jñāna kī jyōti jagā jā'ō ||

अब 'अरुणा' का अज्ञान हटे, यह चतुर्गति का चक्र घटे |
गुरु आनंदसागर आज्ञा से, पूजा-रचना की भावों से ||
ॐ ह्रीं श्रीगौतमगणधरस्वामिने जयमाला-पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
Aba 'aruṇā' kā ajñāna haṭē, yaha caturgati kā cakra ghaṭē |
Guru ānandasāgara ājñā sē, pūjā-racanā kī bhāvōm sē ||
ōm hrīm śrīgautamagaṇadharasvāminē jayamālā-pūṇārghyam nirvapāmīti svāhā |

गुरु गणधर के वचन पर, जो भी श्रद्धा लाए |
इस भव में सुख भोगकर, परभव-सुखी बनाए ||
Guru gaṇadhara kē vacana para, jō bhī śrad'dhā lā'ē |
Iṣa bhava mēm sukha bhōgakara, parabhava-sukhī banā'ē ||

॥ इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपेत् ॥
|| Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipēt ||

*** A ***